

आदर्श प्रश्नपत्र/ Model Question Paper
वेदभूषण द्वितीय-वर्ष / Vedabhushan Second Year/
वर्ष / Year 2022-23

विषय - सामाजिक विज्ञान

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पात्मक प्रश्न -

1. बड़ी समुद्री गुफाओं को..... कहते हैं।
(अ) हिमनद (ब) तटीय मेहराब
(स) मेष शिला (द) घाटी
2. वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान.....हैं।
(अ) घर (ब) जंगल
(स) बाग (द) चिड़ियाघर
3. वाराणसी.....नदी के तट पर स्थित है।
(अ) गंगा (ब) यमुना
(स) चम्बल (द) गोमती
4. राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना.....ने की थी।
(अ) राजेन्द्र प्रथम (ब) दन्ति दुर्ग
(स) पृथ्वीराज चौहान (द) कृष्ण प्रथम
5. मंगोल.....के निवासी थे।
(अ) मध्य एशिया (ब) दक्षिण एशिया
(स) अरब (द) यूरोप
6. राखी व्यवस्था के अन्तर्गत सिक्ख लोग.....कर लेते थे।
(अ) 20% (ब) 25%
(स) 30% (द) 15%

7. 2019-20 में.....नामक महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था।
 (अ) कोरोना (ब) मलेरिया
 (स) डेंगु (द) हैजा
8. विधान सभा के सदस्य को.....कहा जाता है।
 (अ) विधायक (ब) सांसद
 (स) पार्षद (द) मुख्यमन्त्री
9. भारत में मोबाईल सेवा.....में प्रारम्भ हुई थी।
 (अ) 1995 ई. (ब) 2010 ई.
 (स) 1994 ई. (द) इनमें से कोई नहीं
10. भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को.....मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं।
 (अ) पाँच (ब) छः
 (स) सात (द) इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये -

11. केन्द्र में भूकम्प की तीव्रताहोती है। (अधिक/कम)
12. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने..... में पहली बार पर्यावरण कार्यक्रम बनाया था। (1972 ई. /1992 ई.)।
13. अधिकांश ग्रामीण जनसंख्यापर निर्भर है। (व्यापार/कृषि)
14. भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम धर्ममें आया। (5वीं सदी/7वीं सदी)
15. सायणाचार्य ने वेदों पर..... लिखा था। (भाष्य/ टीका)

सत्य/असत्य बताइए -

16. थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। (सत्य/असत्य)
17. महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान में हुआ। (सत्य/असत्य)
18. कोरोना कीटाणु जनित बीमारी है। (सत्य/असत्य)
19. सामाजिक व सरकारी दो प्रकार के विज्ञापन होते हैं। (सत्य/असत्य)
20. सभी नागरिकों को लोकतन्त्र में समान मताधिकार प्राप्त है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान -

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 21. गुर्जर प्रतिहार | (क) बंगाल |
| 22. राष्ट्रकूट | (ख) दक्कन |
| 23. पाल | (ग) गुजरात |
| 24. खिलजी वंश | (घ) 1206 ई.-1290 ई. |
| 25. गुलाम वंश | (ङ) 1290 ई.-1320 ई. |

अतिलघुत्तरीय प्रश्न -

26. पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं?
27. प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं?
28. ग्रामीणों के घर कैसे होते हैं?
29. प्रशस्ति किसे कहते हैं?
30. हमारे देश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिये।
31. महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था?
32. विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय किस देश में हैं?
33. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
34. विज्ञापन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं?
35. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका वर्णन है?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

36. मानव पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
37. मरुस्थल से क्या आशय है?
38. मध्ययुगीन भारत के व्यापार के बारे में बताइए?
39. राजा लोग मन्दिरों का निर्माण क्यों करवाते थे?
40. निर्गुण और सगुण सम्प्रदायों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

41. भूकम्प और उसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख कीजिए।
42. स्त्री और पुरुष समानता पर अपने विचार प्रकट कीजिए।